

L-72**LL.M. Examination, May-2026****INSURANCE LAW****(L-4003)***Time : Three Hours]**[Maximum Marks : 70*

Note : Attempt any **five** questions. All questions carry equal marks. 5×14=70

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. Define Fire Insurance. What are its essential element? Distinguish between Fire Insurance and Life Insurance.

अग्नि बीमा को परिभाषित कीजिए। इसके आवश्यक तत्व क्या हैं? अग्नि बीमा और जीवन बीमा में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

2. Explain the nature and scope of Marine Insurance.

समुद्री बीमा की प्रकृति और क्षेत्र की व्याख्या कीजिए।

(2)

3. Describe the main principles of Insurance Contract. Differentiate between a General Contract and Insurance Contract.

बीमा संविदा के प्रमुख सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए। सामान्य संविदा एवं बीमा संविदा के मध्य अन्तर स्पष्ट कीजिए।

4. What do you mean by Life Insurance? Discuss the essential elements of Life Insurance.

जीवन बीमा से आप क्या समझते हैं? जीवन बीमा के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए।

5. Discuss the powers and functions of Insurance Regulatory and Development Authority.

बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए।

6. What is a concept of Risk? Explain the characteristics of Insurable risk.

जोखिम की संकल्पना क्या है? बीमा योग्य जोखिम के लक्षणों की व्याख्या करें।

7. Discuss the concept of Insurable Interest under Life, Marine and Fire insurance with the help of decided cases.

जीवन बीमा, समुद्री बीमा और अग्नि बीमा के अन्तर्गत बीमा योग्य हित की अवधारणा को निर्णीत वादों की सहायता से विवेचना कीजिए।

8. What is Voyage policy? Does the deviation of a ship from the voyage contemplated affect the insurer's liability? When is deviation excused?

जलयान नीति क्या है? क्या जहाज का जलयान से हट जाना बीमाकर्ता के दायित्व को प्रभावित करता है? विचलन कब माफ किया जाता है?

9. What is premium? What is the effect of non-payment of premium of the policy? What relief are provided against the forfeiture of the policy for non-payment of premium?

प्रीमियम क्या है? पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान न करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रीमियम का भुगतान न करने पर पॉलिसी जब्त होने पर क्या राहत दी जाती है?

(4)

10. Write short notes on the following :

- (i) Contract of Wager
- (ii) Burglary and Theft Insurance Policies
- (iii) Sickness Insurance

निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए :

- (i) बाज़ी की संविदा
- (ii) बर्गलरी और चोरी बीमा नीतियाँ
- (iii) बीमारी बीमा